



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 7, 2006/फाल्गुन 16, 1927

No. 205]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 7, 2006/PHALGUNA 16, 1927

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2006

का.आ. 290(अ).—यतः, यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों को करने का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) के खंड 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 1 मार्च, 2005 की सं. का.आ. 271(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खंड 11-क के उप-खंड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव उक्त नोटिस जारी होने की तारीख से तीस दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित 1 मार्च 2005 की उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए और यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् मास्टर प्लान 2001 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

3. अतः अब उक्त अधिनियम के खंड 11-क के उप खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

(i) जोन "ई" में गाजीपुर में फूड प्रोसेसिंग सेंटर(मीट) की स्थापना के लिए निम्नलिखित पॉकेटों का भू-उपयोग नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संशोधित किया जाता है:-

स्थान	क्षेत्रफल एकड़ में	भूउपयोग (मास्टर प्लान-2001)	परिवर्तित भूउपयोग	सीमा क्षेत्र
गाजीपुर	9.36 एकड़	व्यावसायिक सी 2- (थोक एवं भांडागार)	उत्पादन (एम 2- व्यापक उद्योग)	पूर्व-दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा दक्षिण-हिंडल- कट नहर/नाला पश्चिम-45 मी0/30 मीटर मार्गाधिकार (पोल्ट्री बाजार के निकट)
गाजीपुर	41.35 एकड़	मनोरंजनात्मक	उत्पादन (एम2-व्यापक उद्योग)	उत्तर-एचटी लाइन पूर्व-शेष एसएलएफ स्थल दक्षिण-बूचइस्थाने के फेस-I और फेस-II को हस्ति क्षेत्र से जोड़ने वाली प्रस्तावित साइक उत्तर/पश्चिम- प्रस्तावित बायोगैस प्लांट और गाजीपुर डेयरी फार्म

(ii) दिनांक 1.8.1990 के भारत के राजपत्र के पृष्ठ 180 पर, जिसे दिनांक 12.1.2004 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं० का०आ० 56(अ) द्वारा संशोधित किया गया था, उद्योगों को हटाने से संबंधित अनुलग्नक-III में दी गई दिल्ली की सीमा में निषिद्ध समूह 'एच' उद्योगों की सूची में 'फल' श्रेणी के अंतर्गत क्रम सं. 1 पर दी गई मद के संबंध में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं अर्थात् गाजीपुर में विशेष अपवादस्वरूप आधुनिक बूचड़खाने की अनुमति दी जाती है।

फल:

1. बूचड़खाना* हानिकर गन्ध
 अपशिष्ट पानी

(* गाजीपुर में केवल आधुनिक बूचड़खाने की अनुमति है)

[सं. के-13011/13/2003-डी डी I बी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2006

S.O. 290(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 271(E) dated 1st March, 2005 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas no objection/suggestion was received in response to the above stated public notice dated 1st March 2005 with regard to the proposed modifications and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan-2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modifications :

(i) "The land use of the following pocket at Gazipur in Zone 'E' is changed as per description listed below for setting up Food Processing Centre (Meat).

Location	Area in acres	Land use (MPD-2001)	Land Use changed	Boundaries
1	2	3	4	5
Gazipur	9.36 acres	Commercial C2- (wholesale & warehousing)	Manufacturing (M2-Extensive Industries)	East — Delhi U.P. Boundary South — Hindon-Cut-Canal / Drain West — 45m/30m R/W Road (adjoining Poultry Market) North — HT line
Gazipur	41.35 acres	Recreational	Manufacturing (M2-Extensive Industries)	East — Remaining SLF site South — Proposed road for connecting Phase I and Phase II of Slaughter House and Green Area. North/West — Proposed Bio-Gas Plant and Gazipur Dairy Farm

(ii) On page 180 of the Gazette of India dated 01.08.1990, as amended vide Extraordinary Gazette Notification No. SO. 56(E) dated 12.01.2004, under the category "Fruits" in the list of Group H industries, prohibited within the Union Territory of Delhi, given in Annexure III regarding clarification of industries, the following modification shall be made in respect of the item at Sl. No. 1 i.e. Abattoirs to permit the modernized Abattoir at Gazipur as a specific exception.

FRUITS:

- Abattoirs* Obnoxious smell
waste water

(* only the modernized Abattoir at Gazipur is allowed)"

[No. K-13011/1B/2003-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.